



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 10.10.2021

1-थाना सेक्टर 39 पुलिस द्वारा हत्या के आरोप में एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से आलाकल्ल चाकू बरामद।

थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 10.10.2021 को पर सेक्टर 44 कट पर लगे पिलर के पास से मु0अ0स0 806/ 2021 धारा 302/307 भादवि में एक वांछित अभियुक्त अनिल पुत्र घासीराम निवासी ग्राम लौघासी थाना नौगांव जिला छतरपुर मध्यप्रदेश हाल पता टीकरी खुर्द कोलोनी नई दिल्ली को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से आलाकल्ल चाकू बरामद हुआ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

अभियुक्त अनिल पुत्र घासीराम निवासी ग्राम लौघासी थाना नौगांव जिला छतरपुर मध्यप्रदेश हाल पता टीकरी खुर्द कोलोनी नई दिल्ली द्वारा अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाने व पत्नी के मना करने पर झगडा हो गया था। जिससे अभियुक्त आक्रोश में आकर पास में पडे चाकू से अपनी पत्नी पर जान से मारने की नियत से हमला कर दिया तथा बीच बचाव करने आयी अभियुक्त की पत्नी की भाभी पर भी चाकू से हमला कर दिया गया। जिससे पत्नी की भाभी बुरी तरह घायल होने पर डाक्टरों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था तथा पास में खडी भाभी की बेटी को भी चाकू लगने के कारण चोट आ गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अनिल पुत्र घासीराम निवासी ग्राम लौघासी थाना नौगांव जिला छतरपुर मध्यप्रदेश हाल पता टीकरी खुर्द कोलोनी नई दिल्ली

आपरिधक इतिहास का विवरण-

- 1.मु0अ0स0 806/ 2021 धारा 302 /307 भादवि थाना सेक्टर 39 गौमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0स0 808/ 2021 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना सेक्टर 39 गौमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण-

आलाकल्ल एक चाकू



2- थाना दादरी पुलिस के द्वारा दिनांक 10/10/2021 को अपहरण की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0 934/2021 धारा 323/364 भादवि का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त वैगनॉर कार बरामद।

थाना दादरी पुलिस द्वारा दिनांक 10.10.2021 को पंजीकृत मु0अ0सं0 934/2021 धारा 323/364 भादवि का सफल अनावरण करते हुये 02 अभियुक्त 1. मोहित राणा पुत्र हरीप्रकाश नि0 ग्राम खंगोडा थाना जारचा गौतमबुद्धनगर,2. मनीष उर्फ मोनू पुत्र पदम सिंह नि0 ग्राम खगोडा थाना जारचा गौतमबुद्धनगर को बिसाहडा फलाई ओवर के नीचे मय गाडी वैगनआर सफेद रंग नं0 यूपी 16 ईटी 6246 को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण-

उक्त अभियुक्त कस्बा दादरी से दिनांक 09.10.2021 को वादी के साथ मारपीट कर वैगनार गाडी में डालकर ले गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. मोहित राणा पुत्र हरीप्रकाश नि० ग्राम खंगोडा थाना जारचा गौतमबुद्धनगर
2. मनीष उर्फ मोनू पुत्र पदम सिंह नि० ग्राम खंगोडा थाना जारचा गौतमबुद्धनगर

अभियोग का विवरण-

मु०अ०सं० 934/2021 धारा 323/364 भादवि थाना दादरी गौतमबुद्धनगर।



3- थाना फेस- 3 नोएडा पुलिस द्वारा जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना फेस 3 पुलिस द्वारा दिनांक 10.10.2021 को 01 शातिर अभियुक्त मोहम्मद सानू पुत्र स्व० शाकिर हुसैन निवासी मोहल्ला करूल्ला मुरादाबाद हाल गली नं० 6 छिजारसी थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को गली नं. 6 छिजारसी नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त मु०अ०सं० 1055/2021 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा अधि० थाना फेस 3 मे 6 माह के लिये जिला बदर किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

- 1 - मोहम्मद सानू पुत्र स्व० शाकिर हुसैन निवासी मोहल्ला करूल्ला मुरादाबाद हाल गली नं० 6 छिजारसी थाना फेस 3 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

1. मु०अ०सं० 302/2018 धारा 392/411 भादवि थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।

2. मु0अ0स0 1055/2021 धारा 10 उ0प्र0 गुण्डा अधि0 थाना फेस 3 गौतमबुद्धनगर।



#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के निर्देशानुसार रिजर्व पुलिस लाईन गौतमबुद्धनगर में डीसीपी मुख्यालय के नेतृत्व में यथार्थ अस्पताल की टीम के सहयोग से नेत्र जांच शिविर लगाकर पुलिस विभाग की परिवहन शाखा के चालकों एवं डायल 112 के पायलटों (करीब 55 चालक) का किया गया नेत्र परीक्षण व स्वास्थ्य परीक्षण।

दिनांक 10.10.2021 को रिजर्व पुलिस लाईन गौतमबुद्धनगर में डीसीपी मुख्यालय डॉ मीनाक्षी कात्यायन के नेतृत्व में यथार्थ अस्पताल की टीम के सहयोग से पुलिस विभाग की परिवहन शाखा के चालकों एवं डायल 112 के पायलटों का नेत्र परीक्षण व स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस जांच शिविर में परिवहन शाखा व डायल 112 से करीब 55 चालकों ने अपने नेत्र व स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच कराकर शिविर का लाभ उठाया।

नेत्र जांच शिविर में डॉ विवेक श्रीवास्तव , डॉ वागीश (कान स्पेशलिस्ट) के नेतृत्व में ,डॉ अश्रनी यादव(आँख स्पेशलिस्ट), डॉ रविन्द्र सिंह(ओडियो मैट्री टेस्ट), काजल ,शकील, रवि (नर्सिंग स्टाफ) , के द्वारा नेत्र व स्वास्थ्य परीक्षण किया गया ।

इस अवसर एडीसीपी लाइन्स इलामारन जी., एसीपी प्रथम नोएडा अंकिता शर्मा, आरआई द्वितीय अब्दुल रशीद व आर आई एम.टी गयाशंकर शर्मा मौजूद रहे।



पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की थाना फेस-3 की महिला सुरक्षा इकाई टीम द्वारा मामूरा थाना क्षेत्र फेस-3 में भटक कर आयी 05 वर्ष की बच्ची को परिजनों से मिलाया

दिनांक 10-10-21 को थाना फेस 3 क्षेत्र के अन्तर्गत एक लड़की जिसकी उम्र करीब 5 वर्ष है मामूरा गांव में घूमती हुई महिला बीट अधिकारी ग्राम मामूरा को मिली, जिसे महिला बीट अधिकारी थाना फेस 3 पर लेकर आये और महिला सुरक्षा इकाई टीम के द्वारा बच्ची के परिजनों को ढूंढने हेतु ग्राम मामूरा में पूछताछ व तलाश की गई तभी इस बच्ची को देखकर बच्ची के फूफा रियाजुद्दीन पास आए और बताया कि यह हमारी बच्ची हैं, जो कल कानपुर से अपने दादा दादी के साथ यहां पर आई थी और आज दोपहर को कहीं चली गई थी। जिससे हम काफी समय से ढूंढ रहे थे और बड़े परेशान थे। इसके माता-पिता का कोविड-19 देहांत हो गया है। बच्ची को पाकर उसके परिजन बहुत खुश हुए और पुलिस के इस कार्य की आसपास के व्यक्तियों द्वारा आभार जताया।

थाना बिसरख पुलिस द्वारा घर से भटककर रास्ता भूले बच्चे को ढूंढकर सकुशल परिजनों के किया सुपुर्द।

दिनांक 9/10.10.2021 की रात्रि को थाना बिसरख क्षेत्र अंतर्गत चौकी चिपियाना बुजुर्ग के पास एक बालक उम्र 6 वर्ष जो अपने घर से खेलते-खेलते घर का रास्ता भटक गया था उक्त सूचना पाकर थाना बिसरख पुलिस द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उक्त बालक को सकुशल ढूंढकर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। इस सराहनीय कार्य के लिए बच्चे के परिजनों ने पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद किया।

#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर की थाना सेक्टर 58 की महिला सुरक्षा टीम द्वारा रामलीला मैदान में परिजनों से बिछडी 05 वर्ष की बच्ची को सकुशल ढूँढकर किया परिजन के सुपुर्द।

दिनांक 10-10- 21 को थाना सेक्टर 58 क्षेत्र के अन्तर्गत सेक्टर 62 स्थित रामलीला मैदान में रामलीला देखने आई 05 वर्षीय बच्ची अपने परिजनों से भीड भाड के कारण बिछड गयी थी। थाना सेक्टर 58 की महिला सुरक्षा टीम द्वारा बच्ची को 03 घण्टे के अथक प्रयास के उपरान्त बच्ची को ढूँढकर परिजनों के सकुशल सुपुर्द किया गया। बच्ची को पाकर बच्ची के परिजन व स्थानीय लोगों द्वारा पुलिस द्वारा किये गये इस मानवीय कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।